



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 22, शुक्रवार, शाके 1941-सितम्बर 13, 2019  
Bhadra 22, Friday, Saka 1941-September 13, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 06, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8965** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Deogarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Deogarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**

Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Governmen.**

कार्यालय नगरपालिका देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्रपत्र-क

| वार्ड सं. | विवरण  |
|-----------|--|
| 01        | कामली ग्राम की समस्त को आबादी को लेते हुये कामलीघाट रेल्वे स्टेशन के क्वार्टरो को सम्मिलित करते हुये कामली उच्च प्राथमिक विद्यालय को लेते हुये पाली रोड पर स्थित पाउडर फैक्ट्री को सम्मिलित करते हुये जवाहरनगर की समस्त आबादी को लेते हुये मदन जी सेन के कुंए की आबादी को सम्मिलित करते हुये पुनः टीलाराम के मकान को सम्मिलित करते हुये रेल्वे फाटक के पास प्राथमिक विद्यालय के आस पास की समस्त आबादी व रेल्वे लाईन के बाईं तरफ की समस्त आबादी व गुन्दलिया की समस्त आबादी को लेते हुये माल गोदाम से पीपली सडक से होते हुये कलालवाडी से पहले कामली मुख्य आबादी को जाने वाली सडक से होते हुये पुनः कामली ग्राम तक इस बीच की समस्त आबादी। |
| 02        | पाली रोड की फाटक से रेल्वे लाईन के दाहिनी तरफ की आबादी को लेते हुये माल गोदाम से पीपली सडक के दाहिनी तरफ की आबादी को लेते हुये कलालवाडी की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुये रा0उ0प्रा0वि0 किटो का बाडिया को छोडते हुये पीछे की बोहरा का कुंआ की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुये जैन ट्रस्ट होते हुये कालु सिंह के मकान के आस पास की आबादी को लेते हुये पुनः पाली रोड से होते हुये पाली रोड की रेल्वे फाटक तक के बीच की समस्त आबादी व सोलंकीयो की नाडी व रुपा का बाडिया को सम्मिलित   |

|    |  |
|----|--|
|    | करते हुये।   |
| 03 | ग्राम चारनिया की बुनकर बस्ती की आबादी को शामिल करते हुये कस्तुरबा विद्यालय को छोड़ते हुये कामलीघाट देवगढ सडक के दाहिनी तरफ की आबादी देवनारायण मन्दिर के पास की आबादी को सम्मिलित करते हुये कृषि उपज मण्डी से होते हुये तीनबत्ती चौराहा से भीलवाडा सडक के दाहिनी तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये पेट्रोल पम्प को सम्मिलित करते हुये पुराने सिमाने हॉल के पास वाली गली से होते हुये धर्मेश रेगर के मकान से मांगीलाल गुरु के दुकान तक की दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये सोलंकी दरवाजा बाहर की समस्त आबादी तथा पुनः सोलंकी दरवाजे से तीनबत्ती चौराहा सडक के दांयी व बांयी तरफ की समस्त आबादी बस स्टेण्ड नगर पालिका कार्यालय देवडुंगरी पंचायत समिति क्वाटर तहसील क्वाटर को सम्मिलित करते हुये रेल्व स्टेशन सडक के दांयी तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये रेल्वे स्टेशन से कामलीघाट की तरफ रेल्वे लाईन के दाहिनी तरफ छोटी नदी की पुलिया के पास की आबादी अम्बामाता की आबादी को सम्मिलित करते हुये कृषि मण्डी के पीछे रेल्वे फाटक से होते हुये मा0 साहब के बीडे में स्थित भील बस्ती की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुये पुनः ग्राम चारनिया की बुनकर बस्ती तक के बीच की समस्त आबादी। |
| 04 | सोलंकी दरवाजा बाहर मोहन जी रेगर के मकान से होते हुये अम्बेडकर सर्कल से आमेट रोड रेल्वे स्टेशन पर बाई तरफ की आबादी को लेते हुये नगर पालिका की धर्मशाला वेयर हाउस रेल्वे क्वार्टरो की आबादी को लेते हुये आमेट रेल्वे फाटक से देवगढ की तरफ बाई तरफ की शास्त्रीनगर की समस्त आबादी को लेते हुये डाक बंगला सिंचाई विभाग कृषि विभाग तहसील व पंचायत समिति कार्यालय पुलिस थाना व पुलिस थाना आवासगृह की आबादी को सम्मिलित करते हुए पी.डब्ल्यू.डी कार्यालय जलदाय विभाग के पास से उतरी दिशा में शहर कोट होते हुये सोलंकी दरवाजा मोहन जी रेगर के मकान तक शहर कोट के बाहर की आबादी को सम्मिलित करते हुये इस बीच की समस्त आबादी।<br>आमेट रोड पर रेल्वे फाटक से कैलाश मेहता की फैक्ट्री से होते हुये आमेट रोड पर लाल सिंह जी के मकान के पास की आबादी को सम्मिलित करते हुये केन्द्रीय विद्यालय को सम्मिलित करते हुये भूत बावजी का मन्दिर को लेते हुये वन्ना गुर्जर के मकान को लेते हुये पुनः छोटी नदी के पास की रेल्वे फाटक से होते हुये आमेट रोड की रेल्वे फाटक तक इस बीच की समस्त आबादी।  |
| 05 | गुजरी दरवाजा के अन्दर हरिजन मौहल्ले में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ छगन गुंवारिया का मकान को लेते हुये दाहिनी तरफ की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुये आगे हरिजनो की पथवारी और पीपली चौक तक की आबादी गुजरी दरवाजा बावडी के पास गिरधारी गुर्जर के मकान से बांयी ओर नन्दा गुवारिया के मकान से प्रताप बुनकर के मकान से आगे भुणाजी की हथाई के पिछे गली की दोनो तरफ की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुये पानी की टंकी के आस पास की आबादी सम्मिलित करते हुए पोस्ट ऑफिस के पीछे शहर कोट के अन्दर की आबादी को शामिल करते हुये सोलंकी दरवाजा अन्दर महादेव जी के मन्दिर तक एवं सोलंकी दरवाजा से गुजरी दरवाजा मार्ग की दाहिनी तरफ की समस्त आबादी गुरुओ की गवाडी गुसाईयाँ के मकान बल्लो के मकान भुणाजी का   |

|    |   |
|----|---|
|    | मन्दिर को सम्मिलित करते हुये पुनः छगन गुवारिया के मकान तक के बीच की समस्त आबादी।  |
| 06 | मिश्रीलाल आच्छा की पाईप फैक्ट्री से डाक बंगले की उतरी-पूर्वी सम्पूर्ण आबादी सामुदायिक भवन अम्बेडकर भवन विक्रम विहार के आस पास की आबादी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय आमेट रोड के उतरी-पूर्वी भाग की सम्पूर्ण आबादी गुजरी दरवाजा से हरिजन मौहल्ला में प्रवेश करते हुये घेवरचन्द गुवारिया के मकान से लेकर हरिजन मौहल्ले में चलते हुये बायीं तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुये हरिजन मौहल्ला स्थित सामुदायिक भवन एवं शहर पनाह के बाहर तक की आबादी को सम्मिलित करते हुये पुनः मिश्रीलाल आच्छा की पाईप फैक्ट्री तक के बीच की समस्त आबादी।   |
| 07 | महबूब अली शाह की दरगाह से हीर बंगला से स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल को सम्मिलित करते हुये भुण्डवास सडक पर स्थित रेल्वे फाटक की आबादी व माण्डवाडा सडक पर स्थित आबादी को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण रातडिया का बडला की आबादी को सम्मिलित करते हुये सुभाषनगर आवासीय योजना की की समस्त आबादी महाविद्यालय के आस पास की समस्त आबादी व पितामपुरा रोड पर स्थित आबादी को शामिल करते हुये आगे भीलवाडा रोड पर पेट्रोल पम्प के पास की फैक्ट्रीयो को सम्मिलित करते हुये लसानी चौराहा गैस गोदाम से होते हुये पुनः सुभाषनगर से होते हुये पुनः महबूब अली शाह दरगाह तक के बीच की समस्त आबादी।   |
| 08 | डॉक्टर बुलचन्द के मकान से बायीं ओर गली में दोनो तरफ की आबादी देशान्तरियो व कुम्हारों की बस्ती को सम्मिलित करते हुए दक्षिण तरफ रावले नोहरे से दाईं तरफ होली का स्थान से हीरा गुर्जर के मकान को लेते हुए पुनः फोजदार के मकान को सम्मिलित करते हुए गली के दोनो तरफ चलते हुए ऑयल मिल किशन बुनकर की गली पंवारों की गली से दोनो तरफ चलते हुए पीर बावजी की दरगाह से शेखो की गली के दोनो तरफ की आबादी को लेते हुए दायीं तरफ सोहन खटीक की दुकान से खटीको की मण्डी होते हुए नीलकण्ठ महादेव मन्दिर को सम्मिलित करते हुये गोकल विलास की आबादी व नर्बदेशवर महादेव मन्दिर (राघव सागर तालाब की पाल पर स्थित) तक के बीच की समस्त आबादी। |
| 09 | रहीम फकीर के मकान से चम्पालाल के मकान को लेते हुए आगे खटीको के मकान लेते हुए ताजियो का चौक विजयसिंह के मकान तक देवीलाल जी धाभाई के मकान से बंशीलाल धाभाई की हवेली तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी। कमरूद्वीन के मकान से बायीं तरफ चलते हुए अहमद फकीर के मकान से जमादारों की गली की आबादी एवं आगे खटीको के मकान लेते हुए थान जी के मकान तक। जमाल जी के मकान से जगदीश तेली के मकान से सकूर शाह के मकान के पास वाली मस्जिद होते हुए लक्ष्मण बुनकर से मन्सुर अहमद के मकान तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी।  |
| 10 | सज्जन सिंह के मकान से बायीं ओर चलते हुए पानेरीयों की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुये आगे पीथाजी के मन्दिर के पास नारू गुर्जर के मकान से किशना गुर्जर के मकान से पन्ना गुर्जर की बडी गवाडी होते हुए शिव मन्दिर के पास की आबादी को लेते हुए नारू गुर्जर के मकान से बायीं ओर रामेशवरलाल पानेरी के मकान श्याम पानेरी के मकान गोरधन गुर्जर के मकान से आगे किशन गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए बट्टीलाल  |

|    |   |
|----|---|
|    | ढोली के मकान से बडी गुवाडी सम्मिलित करते हुए आगे भैरा दोला गुर्जर के मकान से देवरा को सम्मिलित करते हुए मांगू गुर्जर की दुकान से लुहारों की गली होते हुए श्रीलाल राजपूत के मकान व नाथूसिंह के मकान से नन्दलाल के मकान को लेते हुए गणेश गुर्जर के मकान से मिठु खटीक के मकान से शंकर जी टेलर के मकान देवीसिंह के मकान से घीसुसिंह नाथूसिंह रणजीत सिंह मनोहर सिंह के मकान लेते हुए मदन सिंह ऊंकार सिंह मकान व थान जी गली व सम्पूर्ण आबादी सम्मिलित करते हुए खटीको की मण्डी से हासा अमरा खटीक के मकान तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी।  |
| 11 | राजमहल से राजपूतो का मौहल्ला मय साधुओं की गली दोनो तरफ लेते हुए मय वैष्णवों के मकान लेते हुए व छोगालाल कलाल के मकान से गुलाबसिंह जी के मकान मय सोलंकीयों के मकान व मांगी लाल गुरु के मकान तक के बीच की समस्त आबादी।   |
| 12 | रावला नोहरा भीलो की टांकडी पर मनोहर सिंह जी के मकान से होते हुए गुसाई मौहल्ले में बांयी तरफ आगे चलते हुए नारायण सिंह के मकान तक। तेजसिंह बल्ला के मकान से भीलो के माताजी वाली गली को सम्मिलित करते हुए श्रीमति मुन्नी देवी के मकान तक की समस्त आबादी। बल्लो की हथाई पर विजयसिंह के मकान से गोस्वामी मोहल्ला होते हुए केसरसिंह पंवार के मकान तक के बीच की समस्त आबादी।   |
| 13 | सोलंकी दरवाजा अन्दर बांयी तरफ गुलाब सिंह जी के मकान व दुकानो से होते हुये श्रीलाल कंसारा धन्नालाल कलाल के मकान से होते हुये बस्तीमल कलाल के मकान से होते हुये रामदेव जी मन्दिर के पास की गली के दोनो ओर की आबादी को सम्मिलित करते हुये नन्दलाल राजपूत थानेदार के मकान से सोहन जी टेलर के मकान से गोपीलाल सरगरा के मकान तक की सम्पूर्ण आबादी।  |
| 14 | राजमहल के बाहर चारभूजाजी के मन्दिर से व्यासाँ के मकान सहलतो के मकान दको का सेरिया सदर बाजार होते हुए रोकडिया गजानन जी होते हुए सदर बाजार होते हुए बाई तरफ आमली वाली गली सोनियों की गली को सम्मिलित करते हुये कैलाश मुणोत का मकान ख्यालीलाल समदानी का मकान पण्डित पान भण्डार की दुकान को सम्मिलित करते हुये नारायण जी के मौहल्ले में प्रवेश करते समय बांयी तरफ की दुकानो को सम्मिलित करते हुये विष्णु अग्रवाल का मकान मुकन्द अग्रवाल का मकान से होते हुये आमलेचो की गली के दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये मिश्रीलाल कोठारी के मकान हनुमान मन्दिर को शामिल करते हुये कंसारो की गली के दोनो ओर की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुये आगे सुथारो की गली के दोनो तरफ की आबादी को शामिल करते हुये तेलियो के मकानो को सम्मिलित करते हुये गणेश सिंह राजपूत के मकान तक के बीच की समस्त आबादी। तथा कबीर द्वारा की आबादी को सम्मिलित करते हुये ओम जी बंसल प्यारेलाल पोखरना मूलचन्द सुथार के मकान को सम्मिलित करते हुये दिनेश जीनगर की दुकान से होते हुये लालबाई के मन्दिर तक की आबादी एवं पवन मेडिकल स्टोर से सदर बाजार चलते हुये पुनः कोतवाली चबुतरा से माताजी के मन्दिर से बाई तरफ सदर बाजार होते हुए बोहरो के मकान पोखरना की गली माणक चौक भट्टो का सेरिया के बायी तरफ चलते हुए सेठियों की पोल की आबादी को सम्मिलित करते हुये आगे मिठालाल देरासरियां के मकान से पुरोहित की गली के दोनो ओर की आबादी को शामिल करते हुए पुरोहित की |

|    |  |
|----|--|
|    | हवेली तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी।   |
| 15 | माणक चौक धाभाईयों की हवेली से बायी ओर चलते हुये कुंज बिहारी जी के मन्दिर से आगे बोहरा घाटी चोपदारो का चौक से आगे कालुवारी के मकान को सम्मिलित करते हुये समस्त वारियो की घाटी भंवर सिंह के मकान तक के दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये बडी मण्डी होते हुए नारायण सिंह के मकान होते हुए बडी पोल होते हुए हरनारायण सिंह के मकान के पीछे की समस्त आबादी।<br>मकनसिंह के मकान से सम्पत सिंह के मकान से खुमान सिंह जी कम्पाउण्डर के मकान से नीचे चैन सिंह के मकान तक व उदय सिंह के मकान से मनोहर सिंह के मकान से मोहन सिंह पंवार के मकान से बृजसिंह खींची के मकान से अमर सिंह के मकान से घीसुलाल जी की हवेली से बग्गी खाने से पुरानी रावली स्कूल तक के बीच की समस्त आबादी।   |
| 16 | मालियो का मौहल्ला दोनो तरफ लेते हुए मुला माली के मकान से होते हुये इन्द्र सिंह मास्टर के मकान से बग्तावर माली के मकान तक पुनः मोहम्मद शरीफ के मकान से कंसारो के मकानो को लेते हुये मठ से आगे हनुमान जी के मन्दिर की गली के दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये माधव सिंह की हवेली को लेते हुए लखारो के मकान से प्रेम लखारा के मकान तक कन्हैयालाल टेलर के मकान से रतन जी कलाल के मकान से होते हुये मनिहारो के मकान से सदर बाजार बांयी तरफ भण्डारियों की गली नाईयों की गली सत्यनारायण जी के मन्दिर से मोहनलाल जी सेन के मकान से माणक चौक जैन मन्दिर तक के बीच की समस्त आबादी।  |
| 17 | पंचायती चबुतरें से दांयी तरफ चलते हुए बडी होली के स्थान से आगे बाबूलाल नराणिया के मकान से तिवारियों की गली लेते हुए कजोड भगत के मकान तक व भगवतियों के मन्दिर से आगे सफीला की गली लेते हुए पुलिस चौकी तक एवं राजाजी के मन्दिर से दांयी ओर चलते हुए बावडी वाला सेरिया सदर बाजार होते हुए रमेशचन्द्र मनिहार के मकान तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी। मुरलीधर वैष्णव के मकान से हस्तीमल दक के मकान को शामिल करते हुए सोहनलाल मेवाडा के मकान से दायी ओर चलते हुए नृसिंहद्वारा मन्दिर सूरज दरवाजा पुलिस चौकी तक के बीच की आबादी।   |
| 18 | सदर बाजार इन्द्रमल एडवोकेट के मकान से बाई तरफ चलते हुए कुम्हारो के मकानो को सम्मिलित करते हुये बडे गजानन जी तक एवं जीनगरों की गली सोनियो के मकान पोखरनों की हवेली बडी होली के स्थान से बाई तरफ मेहतो की गली की सम्पूर्ण आबादी दोनो तरफ मिलाते हुये रतन जी उपाध्याय के मकान से दोलपुरा वालो के मकानो को लेते हुए सुन्दर भवन (पुराने पोस्ट ऑफिस) तक एवं आगे बाई तरफ नराणियों का मौहल्ला सम्मिलित करते हुए सरस्वती पब्लिक स्कूल की सम्पूर्ण गली को दोनो तरफ से मिलाते हुए दामोदर जी नराणिया मदनमोहन जी तिवारी के मकान से इब्राहिम जी की हवेली को शामिल करते हुये श्रीलाल जी कोठारी के मकान व अन्य समीपस्थ कोठारियों के मकानो को लेते हुये सुरो के मौहल्ले की आबादी को शामिल करते हुये कोठारियो की पोल से प्रेमशंकर जोशी बजरंगदास जी का मकान से आगे बांयी तरफ रंगलाल पुरोहित के मकान से मांगीलाल कोठारी के मकान से बांयी तरफ चलते हुये लक्ष्मीनारायण मन्दिर जोशीयों की पोल मेहतो की हवेली के बांयी तरफ माणक चौक स्थित प्याऊ को शामिल करते हुये सुनिल |

|    |  |
|----|--|
|    | श्रीमाल की दुकान से आगे चलते हुये प्रदीप सिंह दवे साहब के मकान को शामिल करते हुये महाजनो के मकान की आबादी को शामिल करते हुये धोबीयों की गली की सम्पूर्ण आबादी जानी टेलर के मकान से होते हुये पुनः इन्द्रमल जी एडवोकेट के मकान तक के बीच की समस्त आबादी।  |
| 19 | पवन मेडिकल स्टोर के पीछे नारायण सोनी व मिश्रीलाल आच्छा अजय शर्मा सोनी टेन्ट हाउस मुणोतो की हवेली से दोनो तरफ की गली ख्यालीलाल बांगड बाबुलाल कलवाडिया ईश्वरलाल श्रीमाल कनकमल सुखवाल पुनः मूलचन्द पाण्डिया के मकान से होते हुये जगदीश दादु शान्तिलाल वकील के पुराने मकान के बीच की समस्त आबादी को लेते हुये राधेश्याम पाण्डिया के मकान से आगे ढोलियों की गली में ओझो के मकानात सुनारो के मकान केसरकुंज रामलाल नंगारची के मकान शिवनारायण के मकान से बाई तरफ चलते हुए लादूलाल जी पाण्डिया के मकान को लेते हुए राधेश्याम पाण्डिया का मकान लेते हुए जगदीश सुनार के मकान से बजरंगदास के मकान से वेदो की मस्जिद केशरीमल वेद के मकान वेदों की वागर को सम्मिलित करते हुए वेदो का मन्दिर बद्दीमल वेद के मकान पुरुषोत्तम वेद के मकान से चांद मोहम्मद छीपा के मकान तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये। युसुफ मोहम्मद पिता रहमान जी तथा फारूख मोहम्मद पिता अली मोहम्मद के मकानो को सम्मिलित करते हुये घीसु जी अल्लाबक्ष जी छीपा की दुकानो से धन्नी वेदणी के मकान से फकीरो के मकान के बांयी तरफ वेदो का मौहल्ला नाइयों की सम्पूर्ण आबादी मय डागा जी की हवेली से आगे जैन मन्दिर से रामलाल बंशीलाल पाण्डिया की दुकान तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी। |
| 20 | प्यारेलाल पोखरना के मकान से पदा मोची के मकान को लेते हुये नवरतन कोठारी की हवेली से प्यारेलाल पोखरना के मकान तक पुनः अब्दुल मस्जिद के मकान से काइन हाउस सेठो के नारदे तक की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये फतूमल सिन्धी के मकान से बंशीलाल कोठारी के मकान से सोहनलाल शर्मा के मकान की दोनो तरफ की गली से आगे शंकर जोशी के मकान तक तथा सिपाहियों के मौहल्ले में दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुए काजी साहब की हवेली मदरसा होते हुये सम्पूर्ण सिपाहियों के मौहल्ले की आबादी को शामिल करते हुये फतुमल सिन्धी तक के बीच की समस्त आबादी।  |
| 21 | वेदवारी चौक शमशुदीन (मटरू भाई) के मकान से मंसूर के मकान से मोडी के मकान से होते हुये सुलेमान छीपा के मकान को लेते हुये बल्लो की पोल के अन्दर कैरियर कम्प्युटर तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये ओमप्रकाश पुत्र शेषमल जी पायवाल के मकान को शामिल करते हुये राम सिंह जी बल्ला के मकान से धोबियो के मकान को लेते हुये बशीर अहमद शेख फरीद मोहम्मद छीपा के मकान को शामिल करते हुये बल्लो की पोल में मान सिंह पिता लक्ष्मण सिंह के मकान तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये बल्लो की पोल के बाहर कासम जी छीपा के मकान से फकरुदीन छीपा गफुर मोहम्मद की चक्की घीसु छीपा का मकान अब्दुल फरीद का मकान मुषा छीपा का मकान शेखो की गली को शामिल करते हुये अहमद शेख के मकान इमामबाडा को शामिल करते हुये मदीना मस्जिद गुलाम रसूल सेवानिवृत राजस्व निरीक्षक के मकान को लेते हुये सुलेमान छीपा हाजी फरीद मोहम्मद छीपा रघुनाथ मेवाडा डालचन्द मेवाडा के मकानो को  |

|    |   |
|----|---|
|    | सम्मिलित करते हुये छीपो का चौक वासुमल सिन्धी के मकान को लेते हुये गनी मोहम्मद छीपा का मकान से शहर पनाह होते हुये चांद मोहम्मद छीपा (सहारा इण्डिया) के मकान से होते हुये सुल्तान छीपा के मकान को लेते हुये पुनः शमशुदीन छीपा (मटरू भाई) के मकान के बीच तक की सम्पूर्ण आबादी  |
| 22 | सम्पत जी पोखरना का नोहरा (सुबोध ज्ञान मन्दिर) से पानी की टंकी होते हुये गुलाम रसूल छीपा मास्टर घासा वालो के मकान याकुब जी टाटगढ वालो के मकान को सम्मिलित करते हुये रोशन जी भण्डारी के मकान से होते हुये भंवर जी त्रिवेदी के मकान को सम्मिलित करते हुये हबीब मोहम्मद छीपा भंवरजी कलाल धन्नालाल कलाल के मकानो को सम्मिलित करते हुये दामोदरलाल जी नराणिया के मकान को लेते हुये अनमोल टावर शशिकान्त जोशी के मकान को सम्मिलित करते हुये राधेश्याम अग्रवाल के मकान को लेते हुये शंकर जी अग्रवाल शंकर सिंह किशनावत के मकान से मिथलेश भारद्वाज के मकान से कजोडीमल जोशी के मकान को सम्मिलित करते हुये रामेश्वर जी सिखवाल के मकान से गनी मोहम्मद छीपा मास्टर के मकान को लेते हुये बाबुलाल पालीवाल के मकान को सम्मिलित करते हुये लोदीयो के मकान फरीद मोहम्मद छीपा दिवरे वाले के मकान को सम्मिलित करते हुये सोनियों के मकान गणेश पालीवाल के मकान से आगे चलते हुये गली के दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये हिरालाल कलाल के मकान से भंवरजी शर्मा के मकान को लेते हुये अनन्त प्रकाश पालीवाल जयनारायण पालीवाल के मकान से रमेश सोनी के मकान से मनोहर मेहता खांखलडा वाले के मकान से होते हुये नगर पालिका के पब्लिक पार्क को सम्मिलित करते हुये जगदीश सोनी मांगीलाल कलाल साबिर मोहम्मद रमजुद्दीन के मकान एवं सुबोध ज्ञान मन्दिर तक के बीच की समस्त आबादी। |
| 23 | हुक्मीचन्द जी माली मोहन जी सुथार लक्ष्मणदास वैष्णव का मकान को सम्मिलित करते हुये कैलाश जी मेहता के मकान से होते हुये त्रिलोक माली के मकान से चलते हुए प्रताप जी माली व मालियों की गवाडी की आबादी को सम्मिलित करते हुए अम्बरीश चित्र भण्डार के पास की आबादी को शामिल करते हुए उण्डा सेरिया के दोनो ओर की आबादी को सम्मिलित करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुराना भवन को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के पिछे की समस्त आबादी को लेते हुए भीलवाडा रोड से होते हुए चान्दकुण्ड सामुदायिक भवन प्राथमिक विद्यालय को सम्मिलित करते हुए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (नया भवन) भीलवाडा रोड स्थित लुहारो के मकान को शामिल करते हुये भीलवाडा रोड स्थित रामपूरिया गांव की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुये पुनः रामपूरिया से देवगढ की ओर मुख्य सडक के दोनो ओर की आबादी को सम्मिलित करते हुये पुराने बालिका विद्यालय के पीछे के बीच की समस्त आबादी से होते हुये उण्डा सेरिया के दोनो तरफ की आबादी को शामिल करते हुये पुनः हुक्मीचन्द माली के मकान तक के बीच की समस्त आबादी।  |
| 24 | पीरू भाई की बगीची से होते हुये समस्त शक्तिनगर की आबादी पुरोहितो के मकान नराणिया महादेव मन्दिर के आस-पास की आबादी को शामिल करते हुये मीठालाल माली फारूख जी छीपा का मकान जेबला मालियों की बस्ती रतन माली का मकान उम्मेद माली कस्तुर माली का मकान सफी मोहम्मद का मकान के आस पास की समस्त आबादी को  |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>शामिल करते हुये सिखवाल स्टोन फैक्ट्री से होते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आस पास की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करणीमाता का मन्दिर दरगाह से होते हुये पुराना हॉस्पिटल प्रकाश मेडिकल बुनकर बस्ती महावीर मेडिकल की दुकान से होते हुये बांयी तरफ की आबादी को लेते हुये इदगाह से होते हुये खादी भण्डार के बाहर दुकानों को सम्मिलित करते हुये पुनः पीरू भाई की बगीची के बीच की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुये आंजना क्रय-विक्रय समिति मुरलीधर जी दाधीच का मकान भीलवाडा रोड के बांयी तरफ चलते हुये आरएसईबी क्वार्टर को सम्मिलित करते हुये कन्हैयालाल जी पोखरना से राधेश्याम जी पाण्डिया के मकान से अर्जुन लौहार के मकान तक के बीच की आबादी को सम्मिलित करते हुये सुभाष सोनी कन्हैयालाल उपाध्याय गणपत जी जोशी के मकान से होते हुये मगनीराम जी सुखवाल कैलाश जी कम्पोडर साहब के मकान से होते हुये कमरूद्वीन जी के मकान वकील साहब शान्तिलाल जी कोठारी प्लाजा कवरलाल जी समदानी व रामेश्वर लाल जी सोनी के मकान से मारू दरवाजा बाहर स्थित अब्दुल मस्जिद शेख की दुकानों को सम्मिलित करते हुये शहर पनाह के बाहर की सम्पूर्ण आबादी।</p>   |
| 25 | <p>चारनिया मुख्य गांव की आबादी को शामिल करते हुये कामलीघाट से देवगढ मुख्य सडक के बांयी तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये महावीर पाईप से होते हुये इन्द्रप्रस्थ नगर जैन हॉस्पिटल के आस पास की आबादी को शामिल करते हुये बाईं तरफ चलते हुये आगे विद्या निकेतन माधव विलास महादेव मन्दिर को शामिल करते हुये तीनबती चौराहा पर सुभाष देरासरिया का मकान मरूधरा बैंक ऑफ बडौदा कैलाश जी पोखरना के मकान को शामिल करते हुये प्रतिष्ठा पार्क एंव प्रतिष्ठा पार्क के पीछे की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुये प्रतिष्ठा पार्क के सामने पुराने सिनिमा हॉल से होते हुये मारू दरवाजा तक शहर कोट के बाहर की आबादी को शामिल करते हुए एवं शहर कोट के अन्दर रामद्वारा महाजनो के मकान तेलियो के मकान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को शामिल करते हुये आगे बसन्तीलाल आच्छा की दुकानों से आगे चलते हुये उपाध्याय स्ट्रीट के दोनो तरफ की आबादी को शामिल करते हुये सुखलाल शर्मा मास्टर के मकान तक की आबादी को शामिल करते हुये पुनः मारू दरवाजा बाहर गांव गैर पंचायत को लेते हुए चांदमल जोशी के मकान के पास से वर्धमान सैनेट्री के गोदाम की गली की दोनो तरफ की आबादी को सम्मिलित करते हुये शमशानघाट छोटी नदी पर तुलसीराम जी का मकान से होते हुये समस्त भवानी वाटिका स्कीम की आबादी को शामिल करते हुये ताराचन्द गांधी के मकान से होते हुये बजरंग बैट्री वार्स शॉप तक के बीच की सम्पूर्ण आबादी।</p> |

अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका देवगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।